

Publication: Hindustan

Date: Nov 5, 2016

Headline: Disability Insurance: key reasons you should consider it

विकलांगता बीमा : अक्षम होने पर भी आय बनाए रखेगा



समीर बंसल, डायरेक्टर-बैंकाशर्योरेस,
पीएनबी मेटलाइफ

इंश्योरेस जीवन में वित्तीय अनिश्चितता को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। अप्रैल, 2016 की डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 15 फीसदी या एक अरब लोग किसी न किसी विकलांगता का अनुभव करते हैं। यह संख्या विकासशील देशों में ज्यादा है। विश्व की जनसंख्या का अनुमानित पांचवां हिस्सा या 11 करोड़ से 19

करोड़ लोग बड़ी विकलांगता से पीड़ित हैं।

किसी भी विपरीत स्थिति में अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना आज हम सभी की प्राथमिकता है। भले ही आपने हेल्थ इंश्योरेस कवर ले रखा है, लेकिन आपको ऐसा इंश्योरेस लेना जरूरी है जो विकलांगता को भी कवर करता हो। विकलांगता बीमा यानी डिसेबिलिटी इंश्योरेस आपको किसी बीमारी या चोट से विकलांग होने पर काम न कर पाने की स्थिति में कुछ आय प्रदान कर सकता है।

क्यों कराएं विकलांगता बीमा : यदि आप या अन्य लोग आपकी आय पर निर्भर हों, तो आपको इसकी जरूरत है। यदि आपके ऊपर दायित्व हैं और अन्य लोग आपकी आय पर निर्भर होते हैं, तब आपको विकलांगता बीमा करा लेना चाहिए। इस दौरान आय रुकने से बचत खत्म हो सकती है और वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।